

सीएसआईआर-केन्द्रीय इलेक्ट्रॉनिकी अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान
पिलानी (राजस्थान) 333031

सं. 35/3/2011-राभा

दिनांक - 18 जुलाई, 2017

कार्यालय ज्ञापन

विषय – वैज्ञानिक समूहों/प्रशासनिक व तकनीकी अनुभागों के प्रभारियों द्वारा निर्धारित प्रपत्र में राजभाषा तिमाही प्रगति रिपोर्ट के आँकड़े देने के संबंध में।

प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के उपरांत संस्थान की राजभाषा के प्रगामी प्रयोग (Progressive Use of Hindi) की रिपोर्ट निदेशक महोदय के हस्ताक्षर से निर्धारित प्रपत्र में सीएसआईआर मुख्यालय भेजी जाती है। इस रिपोर्ट में विभिन्न अनुभागों/समूहों/सुविधाओं द्वारा किए जाने वाले पत्राचार व टिप्पण के अतिरिक्त अन्य जानकारी दी जाती है। विभिन्न अनुभागों/समूहों/प्रभागों से प्राप्त यह जानकारी प्राप्त करने के बाद उन्हें समेकित कर रिपोर्ट तैयार की जाती है। ज्ञातव्य है कि संस्थान के कार्यालय ज्ञापन सं. 6(14)/05-Estt, दिनांक 04.05.2017 के माध्यम से संस्थान के विभिन्न वैज्ञानिक प्रभागों/समूहों/क्षेत्रों(एरियाज़) का पुनर्गठन किया गया है। तदनुसार भविष्य में राजभाषा तिमाही प्रगति रिपोर्ट इन समूहों/प्रभागों/एरिया के पुनर्गठन (Reorganization) के उपरांत उनके प्रभारियों द्वारा भरी जानी है।

अतः सभी अनुभागों/समूहों/सुविधाओं के प्रभारियों से अनुरोध है कि कृपया प्रत्येक तिमाही अवधि की समाप्ति के एक सप्ताह की अवधि तक यह रिपोर्ट निर्धारित प्रपत्र में भर कर राजभाषा प्रकोष्ठ में भिजवाना सुनिश्चित करें। रिपोर्ट संबंधी प्रपत्र संस्थान की वेबसाइट में होमपेज पर “फार्म सेक्शन” में “राजभाषा संबंधी प्रपत्र” के अंतर्गत ‘तिमाही रिपोर्ट प्रपत्र’ नाम से अपलोड किया गया है।

कृपया ध्यान दें कि यह रिपोर्ट अत्यंत महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिसमें दिए गए आँकड़ों/जानकारी की तथ्यात्मकता का दायित्व संबंधित अधिकारी का है। यह भी उल्लेखनीय है कि राजभाषा नियम व अधिनियमों का पालन सभी अधिकारियों/कर्मचारियों का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व है। माननीय संसदीय राजभाषा समिति राजभाषा नियमों व अधिनियमों के उल्लंघन को गंभीरता से लेती है।



(रमेश बौरा)
हिंदी अधिकारी

प्रतिलिपि –

1. निदेशक सचिवालय, सीएसआईआर-सीरी
2. प्रशासन नियंत्रक कार्यालय, सीएसआईआर-सीरी
3. राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सभी सदस्य
4. सभी अनुभागों/समूहों/सुविधाओं के प्रभारी
5. प्रभारी, एन एम सी – वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए सूचना पट्ट
6. सूचना पट्ट